SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LIMITED

Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110029

Phone: +91-11-26169909, 26169712 Fax: +91-11-26195897

Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462011

CIN: L74899DL1993PLC052787 (BSE: 507514, NSE: SDBL)



SDBL/BSE/NSE/2023 15.07.2022

To

The Manager,

Listing Department,

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

'Exchange Plaza' C-1, Block G,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai-400 051. cmlist@nse.co.in

Security ID: SDBL

Dy. General Manager,

Department of Corporate Services,

BSE LIMITED.

First Floor, P.J. Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001.

corp.compliance@bseindia.com

Security ID: 507514

SUB: NEWSPAPERS ADVERTISEMENT - NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith advertisements published in newspapers i.e. Notice of Extra-Ordinary General Meeting to be held on Saturday, August 5, 2023 at 12:30 p.m. through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

The above-mentioned advertisement is published in Business Standard Hindi and Business Standard English, newspapers on July 15, 2023

The same has also been uploaded on the Company's www.somindia.com.

This is for your information and records please.

For Som Distilleries and Breweries Limited

Om Prakash Singh
Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC NOTICE

Notice hereby given to the General Public that MSELAP Branch of "Fedbank Financial Services Limited" located at UNIT NO-309, M.M TOWER, BLOCK NO-6 (NORTH MART), PRIVATE PART NO -30 OF BUINGALOW NO-01, TUDGGAM, BACE COURSE ROAD, RASS 5 DUILAM, TEAL & DISTINIDIONE-SEADOL is shifting to the new premises situated at UNIT NO-301, M.M TOWER, BLOCK NO-5 (NORTH PART), PRIVATE PART NO -30 F BUINGAOW NO-01, TUDGGAM, PACE COURSE ROAD, MCAT SO DUILAM, TIM, B.DISTINIDIONE-MS2001 for better services and operation. Teacher it is informed but the said banned office will be operating from current.

Goorej

Godrej Consumer Products Limited

Vikhroli (E), Mumbai 400 079.
Tel: 25188010/20/30, Fax: 25188040
.relations@godrejcp.com, Website: ww
CIN: L24246MH2000PLC129806

MESTINIST (ACCID) (ACC

n compliance with circulars, the Company is electronically dispatchin ne copies of Notice of AGM and the Annual & Integrated Report for nancial year 2022-23 to all the members whose email bits are registered rith the Company/Depository Participant. The Notice of the AGM and the more and the state of the AGM and the company website hitself-glodrigory.com/investors/amular-peor/s

Date :- 15 July 2023

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date (July 31, 2023), may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through e-voting services provided by Central Depository Services Limited ("CDSL"). Members are hereby informed that:

- embers are hereby informed that:

 The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting during the AGM.

 The control of the set o

- attend the AGM but shall not be entitled to cast the vote again during the AGM.

 A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date July 31, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM.

 The manner of voting remotely for members hodding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notice of AGM. The high statement of the company in the AGM of the company in the AGM of the Company in the AGM. The share of the AGM of the

- investor relations@odropc.com, to exurese years with e-voting.
 The members who require technical assistance to access and participate in the meeting through VC may contact Mr. Rakesh Dalwi.
 Manager, Central Depository Services (India) Limited (DCBL), A Deposit Marq. (Dover Parel (East), Mumbal -400013 or send an email to helpdesk evoling@cdslindia.com or call 1800.22 55.33.

By order of the Board of Directo For Godrej Consumer Products Limite

Rahul Botadar Company Secretary & Compliance Office

Date: July 14, 2023 Place: Mumbai

FORM No.

See Regulation 33 (2)

By Regd. AID, Dasti failing which by Publication.

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICE-1/II

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABALPUR

797(2, Sharti Kunj, South Chill Linse

06-07-20

AYIS RANK

(CD 1) AJEEJ PATEL, 421, GRAM-I

(CD 2) BEGAN JEE, 421, GRA INDORE M.P. Indore, MADHY. SH COM 25 VEER SAWARKAR NAGAR SHOP NO 3 RA

Indoor, MADITYA FRADESH.

Officer, DESTS RECOVERY TRIBUNAL JABALURR in OATROATISE as amount of orders passed by to find the part for forcer passed by the Conference of Passet Tail 18 (19 the Conferen

4. Tou l'air fertitry l'unereu lu aigneure sonce a un entre proceedings. Il conformation proceedings. Si na déclion les maloresait you will also be liable to pay.

Si na déclion l'air mainresait as is payable for the period commencing immediately after this notice of the (II) All costs, charges and expenses noursed in respect of the enviror of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.

Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 96-97-2025

Suff Recovery Officer DEBTS RECOVERY TRIBUNAL JABÂALPUR

SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LTD

Office: I.A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Ro 110029 Phone: +91-11-26 169909, 26169712 Fax: +91-11-2619509 Office: SDM 1608e, 23, Zone II, M.P. Nagar, Rhopal (M.P.)-462011 1-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470 Email: compliance@somin

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING / E-VOTING INFORMATION

NOTICE OF EXYRAGORDINARY GENERAL MEETING /
EVOTING INFORMATION

NOTICE is brethy given that an Extra Ordinary General Meeting (FGDM) of the members of a MOMINITE INFORMATION of AUGUST (FGDM) of the members of a MOMINITE INFORMATION (FGDM) of the Moment of 12-20 and 12-20 pm. through Video Conference (VC) or Other Audio-Visual Means (FDAVM) to transact businesses, as set out in the Motice convening the EGDM on July 14, 2023 through decremen on the Members whose semal addresses are registed with the General August (FDAVM) to transact businesses, as set out in the Motice convening the EGDM on July 14, 2023 through decreme made to the Members whose semal addresses are registed with the General August (FDAVM) (Inc.) (I

The mental evolution are interest recoverable. The mental evolution are interested and intereste

after the Motice has been sent description; by the Company, and holds shares as on the cut of date: may obtain the logic ID and password by sending a request to <u>everinge Pass</u>. Co. all Howers, if histhers is already registered with MSDI. for remote e-voting, behind can use histher existing User ID and asserved for casting the votes.

(iii) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the EOGM may attend participate in the EOGM through VELOMA but shall not be entitled to cast their vote again.

participate in the DGM through VCGAW but shall not be entitled to cast there vere again.

(iv) Members any access the NSGU e-vering system at the web link https://www.working.mdl.com.under shareholdershimehors login. The same link is valid for jinning the EGM on the meeting day. It well detailed instructions for the remote e-voing process, joining the EGM and e-voing during the EGM are given in the Motics of the EGM. However, the process is the process of the Loging through VCGAW in The instruction of the EGM. It was also the Loging through VCGAW in This mitters before the scheduled stime of commencement of the meeting and upto 15 minutes afters such scheduler time.

when the control was the control was not because which we deplace the control was the control

I in the Cook Mortice are available for inspection. Members may write to the Company's e-mail compliance(Bosmidia, zom / 1978). Membersh jan, Practicing Company Secretary (ICS) Membership no. FCS 6406) has been appointed as the Scratilizer to sentimize the "emote e-woiring furior to EOGM or e-voting furior to the verbatic of the Company at www.scmindia.com and to the verbatic of NSDL www.scmionia.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing.

(1) Shareholders who would like to express their views/six fuestions during the member party register themselves as a speaker and may sand their queries and request mentioning their mane, demait account inumber/folin number, email (if, mobile number at compliance/Besmindia,com on or before (Saturday), July 29, 2023 (5:00 pm.) In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequentry Asked Questions ("FAGS") and the e-voting manual available at https://www.evocing.nafc.com or aforesaid toll-free number.

By Order of the Bound.

Om Prakash Singh Company Secretary & Compliance Officer

APPENDIX - IV-A [Rule 8(6)] **TENDER CUM AUCTION SALE NOTICE - 03.08.2023**

ction Sale Motor for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Motors is hereby given to the general public and in particular to the Beroversa and Gusarnors the movable property mortgaged / changed to the Secured Creditor, the Physical possession of which has been taken by Authorized Officer of Gent Bank it counter Creditor, with eso data of "As is where ""s "as what it "and "Whitever them se"? "Basis on 103, 82 (227) of recovery of amount mentioned against counter Creditor, with or so data "As is where "s" "as is what it "and "Whitever them se"? "Basis on 103, 82 (227) of recovery of amount mentioned against the second of the secon

| 1 | secured creditor from the borrower. The reserve price and earnest money deposit, description of the immovable property are as mentioned in the table given below. | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------------|--|--|--|--|--|
| | S. Name of the Borrower/ No. Co-Borrower/Mortgagor/ Guarantor | Details of the properties | Amount outstanding as on date of demand notice (Rs) | Date of Demand Notice Date of Possession | Reserve Price (Rs.) | Earnest Money Deposit (Rs.) 10% | | | | |
| | Patel, 2. Mr. Gyanendra Patel S/o Mr. Amrittal Patel, 3. Mr. Vijay Patel S/o Mr. Amrittal Patel, 4. Mr. Ajay Patel S/o Mr. 1. Amrittal Patel, Guarantor: 1. Mrs. Rohini Saigel W/o Mr. Ghanshyam Sebgal, 2. Mr. Naresh Kumar Riihwani S/o Mr. Prem | All that part and paced of the property consisting of Shop No. 35, Indraprasta Tower, Block - A, Plot No 6.1 Mo. 8, Road, Tehsil & Dist. Indore (M.P.), Area: 304 Sq.Fi., Soundaries: East: Part of Plo No. 6, West: Common Passage & Stairs, South: Flat No. UG-36, Block - A, in the name of: Mr. Amittal S/oM. Raghunathisting Patel | 14,42,440/- + interest and other charges | 02.12.2010 11.03.2022 (Physical) | ₹ | ₹ 3,51,500/- | | | | |

Kamar Rijilwami Alc No. of 13/22080000000

Amrittal Si o Mr. Raghenathsingh Patel

TERMS & COURTIONES: (1) The Authorities of the residence of

Indore Branch: 6/2, Race Course Road, Indore, Ph. No. 0731-2538920

....

....



www.wbtenders.gov.in and www.motherdairycalcutta.com/ tender for details. Last date of tender for details. Last date of uploading of online offer is 31.07.2023 upto 03.00pm.

The Andhra Pradesh Dairy Development Coop. Federation Ltd APIICTOWERS, IT PARK, MANGALAGRI, GUNTUR. Emailmdap-dot-globy 9- TENDER NOTICE ON 0-PROCUREMENT PLATFORM Tender No. AHF51-OPRI/12023-ADMN-AHF51, DL1-507-2023 The Andrea Patesh Dup Development Coop. Effection II. Manosladin. Guntur

other Proteich Daily Development Coop Federation LLM, Mangalagini, Guntur Invited for Robergio, Stopply United Section 1997, edited protein Section 1997, edited protein for Robergio, Stopply United for Endocrino 1997, edited protein 1997, edited protein 1997, edited protein 1997, and other connected electrical works at Hahili Daily Shakhars Sanghali in visions to Another Protein 1997, edited to 1997, edited 1997, e



SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

CIN: 1.65991D1.1998Pl.C041796

Registered Office: 5° Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033

Corporate Office: Plot No. 122-4471640; Oliva Plasse III, Grungram, Haryani-122016

Ph. No. 122-4471640; Wibsite: www.salfincedit.car.com

Emill 16-5460; Wibsite: www.salfincedit.car.com

COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING

33" ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 33" Annual General Meeting "GAM") of Saith Creditaire Network Limited (the "Company") will be held on Wednesday, August 9, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("CV") Other Audio Visual Means ("CoAW") to transact the business, as set out in the Notice of AGM ("the Notice"). The Company has sent the Notice along with Integrated Annual Report for the Financial Year ("Fy") 2022-23 on Friday, July 14, 2023, through electronic mode to the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories Participant(s) ("DP9") in accordance with General Circular No(s) 14/2020, 17/2020, 2020, 2020, 11/2021, 21/2021, 21/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, Anpl 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2011, December 8, 2021, December 14, 2021, May 5, 2022, January 13, 2012, December 8, 2021, December 14, 2021, May 15, 2022, January 13, 2021, December 8, 2021, December 14, 2021, May 16, 2021, SEBIH-OCFD/CMD2/CERP/2021/11 (sets), Lanuary 15, 2021, SEBIH-OCFD/CMD2/CERP/2021/11 (sets), January 15, 2021, SEBIH-OCFD/CMD2/CERP/2021/11 (sets), January 13, 2022 and SEBIH-OCFD/CMD2/CERP/2021/11 (sets), January 13, 2021, SEBIH-OCFD/CMD2/CER

22 dated May 13, 2022 and SEBUHO/CFD/Pob-2/PiC/IR /2023/4 dated January 5, 2023 issued by the
Securities and Exchange Board of India (collectively referred as "SEBI Circulars").

Members may note that the Notice along with Integrated Annual Report for FY 2022-23 are also available on the website of the Company at https://satinterreditaexe.com/wp-content/uploads/2023/07/AnnualReport-FY-2022-23 pdf, Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
report-FY-2022-23 pdf, Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
report-FY-2022-23 pdf, Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
report of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
report of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
report of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
("CDSL") at www.veotingindia.com.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies
(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI
(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation Ad of the SEBI
(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation Ad of the SEBI
(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation Ad of the SEBI
(Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation Ad of the SEBI
(Management and Administration) Rules, 2014, as a member Sules, 2015, the Secretarial Standards on
General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and guideline prescribed by the first resolutions are from the Institute of Company Secretaries of India and guideline prescribed by the Members who have the option to cast their vote of the AGM. The remotie e-voting for the AGM is provided in the holdice of the AGM.

| follow the below ins Dematerialized Holding | Register / update e-mail address in your demat account, as per the process advised by your DP. |
|---|--|
| Physical Holding | Register / update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms pursuant to Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBIH-OMIRISON/MISSO-PO-1 PIOPIC/02/2037 dated March 16, 2023 read with SEBIH-OMIRISO/MIRISO-PO-1 PIOPIC/02/2037 dated March 16, 2023 read with SEBIH-OMIRISO/MIRISO PIOPIC/03/2037 dated March 16, 2023 read with SEBIH-OMIRISO/MIRISO PIOPIC/03/2037 dated March 16, 2023 read with Registrar & Share Transfer Agent ("RAT") of the Company, Link Intern India Pri. Lit Registrar & Share Transfer Agent ("RAT") of the Company, I has sent letters to the members about which foliated incompiles for furnishing the required details under foresaid SEBI Circular. Members may also refer to Frequently Asked Questions ("RAGs") under "Updation of KYC Details & Compulsory Issue of Shares in Dematerialized Form under Investor FAQ on Company's website https://satincreditcare.com/investor-relations-satin- creditcare/80fber. |

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Rajeev Bhalia, a Practicing Charters Accountant (IcCAI Membership No. 089018) of Mis Rajeev Bhalia & Associates, Chartered Accountants, a Struinizer to scrutinize the voting at AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner. Members are also informed that in case you have any queries or issues regarding e-voting, you may ref FAGs and e-voting manual availables at www.evotingindia.com, under "Help' section or write an e-mail helpdesk.evoting@cdslindia.com. All grievances connected with the facility for e-voting may to addressed to Mr. Rakesh Daily. Senior Manager, COSI, AWing, 25° Floro, Marathon Futurex, Maratlah Compounds, N M Joshi Mang, Lower Partel (East), Mumbal - 400013 or send an e-mail helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 225 633.

Place: Gurugram Date: 14 July, 2023

(Vikas Gupta) Company Secretary & Chief Compliance Officer

SHRIRAM

Shriram Finance Limited Head Office: Level-3, Wockhardt Towers, East Wing C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051 Tel: 022 4241 0400, 022 4060 3100; Website: http://www.shriramfinance.in Registered Off.: Sri Towers, Plot No.14A ramfinance in Registered Off.; Sri Towers, Plot No.14A. South Phase Industrial Estate, Guindy, Chennai 600 032. **Branch Off:** No 24 BB, First Floor, Arena Square, Sector-B, Slice No. 5, Scheme No. 78, A.B. Road, Opposite Shalimar Toenship, Indore, MP- 452001

APPENDIX-IV-A [SEE PROVISION TO RULE 8 (5) & 9 (1)] AUCTION NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

NOTE: It is informed that "SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED" has been amalgamated with "SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LIMITED" as per order of NCIT, Chennal. Subsequently the name of "SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LIMITED" was changed as "SHRIRAM FINANCE LIMITED" with effect from 30.11.2022 vide Certificate of Incorporation pursuant to change of name dated 30-11-2022.

E-nuclin Molic for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 read with provision to Rule 9 (1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002.

Notice is hereby given to public in general and in particular to the Borrower/s and Guarantor/s that the below described immovable properties mortgaged/
Anapted to the Sintram Finance Limited. The physical possession of which have been taken by the Authorized Officer of Shriram Finance Limited (Earlier known as shriram City Union Finance Limited) will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis in e-auction on 04.08.2023 between 11 AM to 1 PM for recovery of the balance due to the Shriram Finance Limited from the Borrower/s and Guarantor/s, as mentioned in the table, Details of the Borrower/s and Guarantor/s, amount due, short description of the immovable property and encumbrances known thereon, possession type, reserve price and earnest money deposit and increment are also given as:

| Name of Borrowers/ | Date & Amount | Description of Property | Reserve Price | Earnest Money | Date & | Contact Person |
|---|--|--|---|---|--|--|
| Co-Borrowers/ | of 13(2) | | (Rs.) & | Deposit Details | Time of | and Inspection |
| Guarantors/Mortgagers | Demand Notice | | Bid Increment | (EMD) Details. | Auction | date |
| Madhya Pradesh – 466001. 2) Mrs. Chandra Kant W/o Dhan Kumar Jain New Bus Stand, Tractor S/R, Sehore, MP – 466001. 3) Mr. Abhishek S/o Dhan Kumar Jain New Bus Stand, Tractor S/R, | Demand Notice dated 30.08.2021 Rs. 67,56, 498/ (Rupess Sixty Seven Lakhs Fifty Six Thousand Four Hundred Ninety Eight Only) as per FCL as on 09.08.2021 Account No. CDBHPTF1503020 002 | All that Place and parcel property of favour one diverted Plot No. 51, area 1500 Sq. Feet, a part of Block No. 3- A, part of Sheet No. 16, situated at Paltan Area, Chawani, Sehore, Old ward No. 8, New ward No. 4, Nagar Palika Parisad, Sehore, WP- Bounded as under: North: Way South: Plot No. 52, West: Plot No. 50. | Rs 21.36,500'- (Pupees Twenty One Lakhs Thirty Six Thousand Five Hundred Only) Bid Increment: Rs.25,000'- (Rupees Twenty Five Thousand Only) and in such multiples Earnest Money Deposit (EMD) (Rs.) Rs.21.3650'- (Rupees Two Lakhs Thirteen Thousand Six Hundred Fitty Only) Last Date for Submission of EMD: 3rd August, 2023, Time 10.00 a.m. to 05.00 p.m | EMD amount to be deposited by way of RIGS/ NEF1 to the account details mentioned herein below in favour of Shriram Finance Limited BANK NAME- AXIS BANK LIMITED BRANK LM SHOWN SALAI, MYLAPORE, CHENNAI BANK ACCOUNT NO - C | 04th August 2023 Time: 11.00 a.m. to 01.00 P.M. | Ved Prakash Mishra +91 9910144252 Mr. Deb Jyothi 9874702021 Mr. Ritesh Pandey 9009793745 Property Inspection Date: - 2nd August , 2023 Time 11.00 a.m. to 04.00 p.m. |

STATUTARY 15 DAYS NOTICE UNDER RULE 9 (1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

••••

The borrower/mortgagors/guarantors are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to dated interest and ancillary expenses befor The durrower/morrgagusguarations are nereely notined to pay the sum as menutione above along with up to dated interest and anchinary species before
the date of e-auction i.e. 0.4(08/2025, alling which the property will be accidened/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost.

The Authorised Officer reserves the right for eject any or all bids without furnishing any further reasons. The online auction will be conducted on website
(https://www.disposalhub.com) of our auction agency NEXXEN SOLUTION PVT. LTD. and for the place of Tender Submission/ for obtaining the bid form.
Tender open & Auction, please visit the website https://www.disposalhub.com and for detailed terms and conditions of the sale please refer to the link
http://www.shriramfinance.in/auction provided in the Shriram Finance Limited website.

Place : Sehor MP Date : 15/07/2023

Shriram Finance Limited

....

कब्जा सचन (अचल संपत्ति हेत्)

जब कि

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सतवीर सिंह, अरुणा कुमारी और बलबीर सिंह ठाकुर** को 31.01.2022 की सूचना मे वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDCP00439261 की राशि रु. 6,40,566.32/- (रुपए छह लाख **चालीस हजार पाँच सौ छियासठ और बत्तीस पैसे मात्र)** और **31.01.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते ह् अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता क सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों क कार्यान्वयन करके 10.07.2023 को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रु. 6,40,566.32/- (रुपए छह लाख चालीस** हजार पाँच सौ छियासठ और बत्तीस पैसे मात्र) 31.01.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

हाउस नंबर 220-221, दुसरी मंजिल, पॉकेट 5, सेक्टर 25, रोहिणी, रयान इंटरनेशनल स्कूल के पास, नई दिल्ली–110085[°], दिल्ली

दिनांक : 10.07.2023 प्राधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : नई दिल्ली

> कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

धनी लोन्स एन्ड सर्विसेज लिमिटेड (इंडियाबुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड) (CIN: U74899DL1994PLC062407) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी न सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **अमित चौधरी** और ज्योति चौधरी को 24.06.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं HILANOI00423521 की राशि रु. 1.47.41.993.37/- (रूपए एक करोड सैंतालीस लाख **इकतालीस हजार नौ सौ तिरानवे और सैंतीस पैसे मात्र)** और 12.06.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता के सचना दी जाती है कि. अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानन की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानन वे नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों क कार्यान्वयन करके 11.07.2023 को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. 1,47,41,993.37/- (रुपए एक करोड़ मैंतालीय लाख डकतालीस इजार नौ सौ तिरानवे और सैंतीस पैसे मात्र) 12.06.2021 के अनुसा और उस पर ब्याज के साथ **धनी लोन्स एन्ड सर्विसेज लिमिटेड** के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुत्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. सीएसपी −3 जिसका माप 131.94 वर्ग मीटर, शक्ति खंड −1, इंदिरापुरम में स्थित है, गाज़ियाबाद-201014, उत्तर प्रदेश

दिनांक : 11.07.2023 स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकत अधिकार्र धनी लोन्स एन्ड सर्विसेज लिमिटेड

∠ EICHER **EICHER MOTORS LIMITED**

CIN: L34102DL1982PLC129877

पंजीकृत कार्यालय : थर्ड फ्लोर-सिलेक्ट सिटीवॉक, ए-3 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 फोन : +91 11 41095173

कार्पोरेट कार्यालय : #96, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोन: +91 124 4445070 ई-मेल : investors@eichermotors.com

वेबसाइट : www.eichermotors.com वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आयोजनार्थ निर्धारित

41वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आयशर मोटर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के लागू प्रावधानों और तदधीन जारी सर्कुलर्स के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) के माध्यम से, बुधवार, 23 अगस्त, 2023 को अप. 01.00 बजे आईएसटी आयोजित की जानी निर्धारित है। एजीएम सूचना, जिसमें शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित व्यवसाय मदें, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से एजीएम से जुड़ने हेतु विस्तृत अनुदेश सहित दी गई हैं, यथासमय प्रेषित की जाएगी।

सदस्यगण, जो भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए हैं और जिनके द्वारा अपनी ई-मेल आईडीज / बैंक खाता विवरण पंजीकृत नहीं करवाया गया है, उनसे अनुरोध है कि एजीएम सूचना, वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने और रिमोट वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेत लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., कम्पनी के रजिस्टार ऐंड शेयर टांसफर एजेन्ट के पोर्टल https://web.linkintime.co.in/KYC/index.html पर जाएं और अपनी ई-मेल आईडीज तथा अन्य विवरण पंजीकृत करवाएं। जो शेयरधारक डीमैट रूप में शेयर धारण किए हुए हैं नमें अनुगेध है कि हे जागोलन प्रयोजन के लिए आने महंधित रिपॉजिटरी पा

सदस्यों को एजीएम की सचना में सचीबद्ध व्यवसाय मदों पर अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से डालने का अवसर प्राप्त होगा। भौतिक शेयरधारकों द्वारा अथवा उन शेयरधारकों द्वारा, जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं करवाई गई हैं, रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा वोट डालने का ढंग एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा। एजीएम सूचना की प्रति वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोर्ट और इस वोटिंग के लिए लॉगइन विवरण सहित, उन सभी सदस्यों को यथासमय प्रेषित की जाएगी, जिनका ई-मेल पता कम्पनी / डीपी के पास पंजीबद्ध है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपीज उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी, जो उसके लिए अनुरोध करेंगे।

("डीपी") से सम्पर्क करें तथा डीपी द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करें।

41वीं एजीएम की उपरोक्त सूचना, वार्षिक रिपोर्ट सहित कम्पनी की वेबसाइट www.eichermotors.com तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज नामतः बीएसई और एनएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमानुसार पर उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त सूचना भी उक्त वेबसाइट्स पर उपलब्ध है।

एतदद्वारा यह सूचना भी दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां 17 अगस्त, 2023 से 23 अगस्त, 2023 तक (दोनों तिथियों सहित) बोर्ड द्वारा दिनांक 11 मई, 2023 को आयोजित इसकी बैठक में, शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की शर्त पर, अनुशंसित अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रू. 1/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रू. 37/- के लाभांश के भुगतान हेतु ग्राह्मता निर्धारण के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी। एजीएम में भाग लेने तथा रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए शेयरधारक की ग्राह्यता निर्धारण हेतु कट—ऑफ तिथि 16 अगस्त, 2023 होगी।

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित व्यावसायिक बैंक)

वास्ते **आयशर मोटर्स लिमिटेड** हस्ता.

तिथि : 14 जुलाई, 2023 **स्थान**ः गुरूग्राम, हरियाणा अतुल शर्मा कम्पनी सचिव

प्रपत्र–'जी' अभिक्तचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

नॉजिक्स इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड का नोएडा में रियल एस्टेट (आवासीय) परियोजना में परिचालन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण कॉर्पोरेट देनदार का नाम ब्लॉजिक्स इन्फ्राटैक पाइवेट लिमिटेड साथ में पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. सीआईएन:U70101DL2010PTC202613 डीजीएल006, ग्राउंड फ्लोर, डीएलएफ गैलेरिया, पंजीकत कार्यालय का पता

विहार फेस-। नई दिल्ली पर्वी दिल्ली-110091 **पहले पंजीकृत कार्यालयः** 301–ए, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, बाराखंभा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001 3. वेबसाइट का यूआरएल https://logixinfratech.com/ उस स्थान का विवरण जुहां अधिकांश प्लॉट नंबुर 1 जीएच—1, एक्सप्रेस्वे सैक्टर—143, अचल संपत्तियां स्थित हैं नोएडा.गोतम बद्ध नगर. उत्तर प्रदेश— 201301

मख्य उत्पादों / सेवाओं की रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 2538 डकाइयां हैं . स्थापित क्षमता वित्तीय वर्ष 2021—2022 के लिए नवीनतम उपलब्ध वित्ती मख्य उत्पादों की मात्रा और मल्य 🖊 विवरण के अनुसारः मात्रा—एनए, मूल्य—1221.88 लाख

पिछले वित्तीय वर्ष में बेची गई सेवाएं कर्मचारियों / कामगार की संख्या दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय https://logixinfratech.com/ पर विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की उपलब्ध है याची एकिया की बाट की घटनाओं के लेए प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं

संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत https://logixinfratech.com/ पर समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां पलब्ध है अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु | 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि संभावित समाधान आवेदकों की अंतरिम 10 अगस्त 2023 सची जारी करने की तिथि

अंतरिम सची के बारे में आपत्तियां

प्रस्तत करने हेत अंतिम तिथि

ईओआई जमा करने के लिए संसाधित | cirp.logixinfratechpvtltd@gmail.com अतुल मित्तल समाधान प्रोफेशनल, लॉजिक्स इन्फ्राटैक प्राइवेट लिमिटेड तिथि: 14.07. 2023 पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00439/2017-18/10762

🏝 सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड

नई दिल्ली - 110029, **फोन:** + 91-11-26169909, 26169712, **फैक्स:** + 91-11-26195897 **कॉर्पेरेट कार्यालय:** सोम हाउस, 23, जोन II, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)-462011

Nebsite: www.somindia.com CIN: L74899DL1993PLC052787 (BSE: 507514, NSE: SDBL)

विशेष सामान्य बैठक की सूचना/ई-वोटिंग की जानकारी

नूचित किया जाता है कि सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड के सदस्यों की एक विशेष आम बैठक

('ईओजीएम') शनिवार, 5 अगस्त, 2023 को दोपहर 12:30 बजे ईओजीएम के नोटिस के अनुसा

ावसायों को संचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमो

. कंपनी ने 14 जुलाई, 2023 को ईओजीएम बुलाने का नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों के भेजना शुरू कर दिया है जिनके ईमेल पते कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') और भारतीय प्रतिभृति एवं

विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है

ईओजीएम आयोजित करने का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.somindia.com. बीएसई और एनएस की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट

अधिनियम की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों वे

अनुसार, सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के संशोधित और

विनियम 44 के अनुसार, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग (ईओजीएम से पहले) या ई–वोटिंग

(ईओजीएम के दौरान) (ई-वोटिंग) का उपयोग करके ईओजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्ताव

पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। वो व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में य

शनिवार, 29 जुलाई, 2023 (कट–ऑफ तिथि) के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिक

के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वहीं सदस्य ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हक़दार होंगे। सदस्यों वे

वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तारीख को कंपनी की पेड –अप इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी

शेयरों के अनुपात में होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईओजीएम में भाग लेने के बारे में विस्तृत निर्देशों वे

'रिमोट ई-वोटिंग' अवधि (बुधवार) 02.08.2023 (आईएसटी 9.00 बजे) को शुरू होकर (शुक्रवार

04.08.2023 (आईएसटी 5.00 बजे) को समाप्त होगी। सदस्य ध्यान दें कि उक्त अविध के बाद रिमोट ई

(ii) कोई भी व्यक्ति. जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण करता है और कंपनी दारा इलेक्टॉनिक रूप से नोटि

भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है. और कट-ऑफ तिथि पर शेयर रखता है: वो

evoting@nsdl.co.in. पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि

वह रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपनी

(iii) जिन सदस्यों ने ईओजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम वे

माध्यम से ईओजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं लेकिन वो पुनः वोट डालने के हकदार नहीं

(iv) सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को वेब लिंक: https://www.evoting.nsdl.com प

. शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन के तहत एक्सेस कर सकते हैं। यही लिंक बैठक के दिन ईओजीएम में शामिल

होने के लिए मान्य है। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया, ईओजीएम में शामिल होने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के

(v) सदस्यों को बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और निर्धारित समय के बाद 15 मिनट

(vi) जिन सदस्यों की ई–मेल आईडी ई–वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी व

. साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे ईओजीएम नोटिस में वर्णित आवश्यक विवरण और

दस्तावेज कंपनी के ई-मेल आईडी compliance@somindia.com या आरटीए ई-मेल आईडी

(vii) ईओजीएम नोटिस में संदर्भित दस्तावेज निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। सदस्य कंपनी की ई–मेल आईडी

(viii) श्री नीलेश जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (आईसीएसआई सदस्यता संख्या एफसीएस 6436) व

निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई–वोटिंग' (ईओजीएम से पहले) या ई–वोटिंग (ईओजीएम के दौरान)

(ix) संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.somindia.com पर और

रनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर अध्यक्ष द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद या

(x) शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे स्वयं को एक स्पीकर के

रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल

नंबर का उक्लेख करते हए अपने प्रश्न और अनुरोध compliance@somindia.com पर (शनिवार), 29

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) य

www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकत

पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800225533 पर कॉल या evoting@nsdl.co.in पर

<u>पंजीकृत कार्यालय :</u> व फेयरवे, भूतल और प्रथम तल, सर्वे सं. 10/1, 11/2 और 2/28, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के पास, चल्लाघट्टा,

बेंगलोर— 560071. <u>प्रादेशिक शाखा कार्यालय</u> : 16/12 दूसरा तल, डब्ल्यू.ई.ए., आर्या समाज रोड्

क वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईओजीएम में शामिल होने की अनुमति है।

लेए, सदस्यों / शेयरधारकों से ईओजीएम की सूचना को पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।

पंजीकृत कार्यालय: I-ए, ज़ी प्लाजा, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, कमल सिनेमा रोड,

फोन: + 91-755-4278827, 4271271, फैक्स: + 91-755-2557470

ईमेल: compliance@somindia.com, वेबसाइट: www.somindia.com

(ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

वोटिंग की अनमति नहीं दी जाएगी।

info@masserv.com पर भेजें।

अनरोध भेज सकते हैं।

दिनांक: 14.07.2023

compliance@somindia.com पर लिख सकते हैं।

की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा बताया जाएगा।

जलाई. २०२३ (शाम 5 बजे) को या उससे पहले भेज सकते हैं।

मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

।5 अगस्त 2023

कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेतू)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत प्रधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल असेट्स रंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट. 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **रॉयमोन जे और बिन्सी के जोस** को **05.05.2022** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज** खाता नं. HDHLROH00485571 (पहले डीएचएफएल का कर्ज खाता क्र. 00001027) की राशि रु. 25,43,518.47/- (रुपए पच्चीस लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ अठारह और सैंतालीस पैसे मात्र) और **05.05.2022** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **10.07.2023** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. 25.43.518.47/- (रुपए पच्चीस लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ अठारह और सैंतालीस पैसे मात्र) 05.05.2022 के अनुसार और उस पर

ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा । उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति/संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

अचल संपत्ति का विवरण

पहली मंजिल का पिछला भाग मध्य $\sqrt{\mathrm{पूर्वी}}$ भाग, छत के अधिकारों के बिना, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, जिसका प्राइवेट नंबर 11 है, फ्रीहोल्ड निर्मित संपत्ति नंबर सी-23 और सी-23-ए में से, 400 वर्ग गज के क्षेत्रफल में निर्मित (200+200), खसरा नंबर 923 में से, गांव नवादा की राजस्व संपदा में स्थित, मटियाला रोड, किरण गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, दिल्ली, सार्वजनिक प्रवेश द्वार, पैसेज, सीढ़ी, लिफ्ट, सबमर्सिबल, खुले शाफ्ट क्षेत्र के सार्वजनिक अधिकारों के साथ, सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र में एक बाइक पार्किंग के अधिकारों के साथ–साथ उक्त भूखंड के तहत भूमि के आनुपातिक अविभाजित अविभाज्य और असंबद्ध फ्रीहोल्ड अधिकारों के साथ, जो कि निम्नानुसार सीमाबद्ध है:

प्लॉट नंबर सी – 22 दक्षिण : प्लॉट नंबर सी – 24

पश्चिम : सडक

दिनांक : 10.07.2023 स्थान : नई दिल्ली

रेलवे लाइन और परिसरों के सभी

उपभोक्ताओं को एतद द्वारा सुचना दी जाती है कि रेलवे के निम्नलिख़ित

खंड पर 25000 वोल्टस 50 हर्ट्ज ऐसी शिरोपरी कर्षण तारों को खंड के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को या

बाद उर्जित किया जायेगा। उस

बाद उजित किया जायगा। उस तारीख और उस तारीख के बार सभी शिरोपरी कर्षण लाइनों को हर समय विदयुतमय माना जायेगा और कोई भी अनिधकृत व्यक्ति उस शिरोपरी लाइन के नजदीक दाखिल

खंड तारीख उत्तर रेलवे के इंछापुरी

स्टेशन पर जे. एम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (जी सी टी) साइडिंग

न:- जे एम बी पी एल / जी सीटी/आई एच पी / 011/2023-24/ (ईआईजी) दिनांक:-

14/07/2023 (अंकित शर्मा) परियोजना प्रबंधक, इच्छापुरी जे. एम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड।

FORM NO.14

THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL

HDFC Bank Ltd. ...Certificate Holde

M/s Ramanand Agarwal & Ors.

DEMAND NOTICE

To, 1. M/s Ramanand Agarwal, through its proprietor Mr. Ramanand Agarwal, having registered office at Surajgarh Mandi, Surajgarh

Chirawa, District Jhunjhunu (Raj.) - 333029. 2. Mr

Chirawa, District Jhunjhunu (Raj.) - 333029. 2. Mr. Ramanand Agarwal S/o Shri Basant Lal Agarwal, Resident of Anaj Mandi, Ward No. 4. Surajgarh (Rural), Surajgarh, District Jhunjhunu (Raj.) - 333029. 3. Mr. Praveen Kumar S/o Shri Ramanand Agarwal, Resident of Anaj Mandi, Ward No. 4. Surajgarh (Rural), Surajgarh, District Jhunjhunu (Raj.) - 333029. 4. Mr. Niranjan Agarwal S/o Shri Ramanand Agarwal, Resident of Anaj Mandi, Ward No. 4. Surajgarh (Rural), Surajgarh, District Jhunjhunu (Raj.) - 333029.

n view of the Recovery Certificate dated 18.01.2023

ssued in OA No. 55/2022 passed by the Presidi

Officer, DRT, Jaipur for an amount o Rs.1,26,37,840.50 (RC Amount) in word Rs. On

Eight Hundred Forty and Fifty Paisa Only an

Notice Under Rule 2 of Seco

न हो या काम करने नहीं जाये।

प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) खनिज मवन 10-3-311ए कैंसल हित्स, मासाब टैंक हैदराबाद- 500 028 नैगम पहचान संख्या (सीआईएन) - L13100TG1958G01001674

'रुचि की अभिव्यक्ति' (ईओआई) हेतू आमंत्रण

जतीसगढ़ में बैलाडीला क्षेत्र में स्थित अपनी बचेली और किरंदुल खदानों से लौह अयस्क की आपूर्ति हेत् दीर्घकालिक ग्राहक के रूप में सूचीबद्ध होने हेत् पात्रता मानदंड को पुरा करने वाले इच्छुक एंड युस पार्टियों से एनएमडीसी लिमिटेड दीर्घ—कालिक करार करना चाहता है । बैलाडीला सेक्टर में स्थित बचेली खान और किरंदुल खान से लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए एनएमडीसी के साथ दीर्घकालिक करार करने के इच्छुक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, मिनी स्टील प्लांट्स, पेलेट प्लांट्स, स्पन्ज आयरन प्लॉट्स और किसी भी एंड यूस प्लांट्स से एनएमडीसी लिमिटेड 'ईओआई' (रूचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित करतों है ।

मानदंड सहित 'ईओआई' दस्तावेज एनएमडीसी वेबसाइट http://www.nmdc.co.in पर देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है । उपरोक्त आमंत्रण से संबंधित कोई भी शुद्धि–पत्र केवल एनएमडीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और प्रकाशित नहीं किया जाएगा । शुद्धि–पत्र यदि हों, तो इसे नोट करने के लिए भावी आवेदक समय—समय पर उपरोक्त वेबसाइट देखते रहें । अधिक स्पष्टीकरण के लिए महाप्रबंधक (वाणिज्य), एनएमडीसी लिमिटेड से मोबाइल

संख्या. 9848063300; ईमेल : kvvssrkvprasad@nmdc.co.in पर संपर्क किया जा सकता है ।

अधिशासी निदेशक (वाणिज्य)

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड (कारपोरेट पहचान संख्याः L74899DL1993PLC053579)

SYSTEMS पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-1-ए, 6, देविका टॉवर. नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नौयडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307 दूरभाष : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : <u>rsil@rsystems.com</u>

कम्पनीज अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 201(2) के अनुसरण में एतद्तद्वारा सूचित किया जाता है कि आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ("कम्पनी") धारा 196 साथ में पठित अनुसूची V एवं अधिनियम के अन्तर्गत लागू अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत श्री नितेश बंसल (DIN: 10170738) को कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक एवं मख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पाँच वर्षों के लिए (i.e. मई 30, 2023 से मई 29, 2028 तक) शेयरधारकों द्वारा उन्नतीसवीं साधारण सभा में अनुमोदित रोजगार अनुबन्ध में उल्लेखित नियम व शर्तों पर नियुक्त करने हेतु, कम्पनी केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने जा

> बोर्ड के आदेशानुसार कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

दिनांक : जुलाई 14, 2023

भास्कर दुबे (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

11—अप्रैल—2023

11—जुलाई—2023

₹5. 76,03,449 / -

सुपर एरिया एवं प्लॉट एरिया 608.21 व

गज प्रथम तल. कालोनी "टीडीआई सिर्ट

ग्राम नांगलकलां में और इसके आसपा

रिधन है जो सभी नहसील गर्र जिल

फ्लोर" नंबर ए-24 / 1 परिमाप 2846 99

सिटी" के नाम से ज्ञात, कुंडली, सोनीपत जो ग्राम नांगलकलां में और इसवें

जिला सोनीपत, हरियाणा के अंतर्गत पड़र

हैं, चौहददी निम्नानुसार : पूरब : 18 मीटर चौड़ी रोड, उत्तर : 3.353 मीटर चौड़ा राजस्व रास्ता, पश्चिम : ए-ए24/2,

नंबर 288, क्षेत्रफल परिमाप 48 वर्ग मीटर,

चतर्थ तल ब्लॉक—जे फेज—।

सेक्टर—16, रोहिणी, दिल्ली—110089

दक्षिण : 12 मीटर चौड़ी रोड।

(रूपए छहत्तर लाख

तीन हजार चार

सौ उन्चास मात्र)

11—अपैल—2023

11—जुलाई—2023

रू. 70.17.377 /

लाख सत्रह हजार

तीन सौ

11—जलाई—2023

रू. 19.76.718 / -

अठारह मात्र)

AXIS BANK नवी मुंबई-400708 **अन्य पता :** एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस हाउस, टॉवर टी-2, द्वितीय तल. आई-14. सेक्टर-128. नोएडा एक्सप्रेसवें जी ग्रीन्स विश्वराजन, नोएडा (उ.प.)–201301, **कार्पोस्ट कार्यालय**: 'एविश्तस हाउस', ब्लॉक-बी, बाम्बे डाइंग निल्स कम्पाउण्ड, पाण्डुर बुधकर मार्ग, वर्ती, मुन्बई–400 25 **पंजीकृत कार्यालय**: 'त्रिशृल, तृतीय तल, समर्थेश्वर मन्दिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006 सरफासी ऐक्ट 2002 के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनर्निमांग तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन ता प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदार(शें)/सह–कर्जदार(शें)/गारंटर(शें)/बंधकदाता(ऽ को मांग पुचना जारी की थी, जिससे उनसे पुचना में वर्गित काकाया राशि उकत पुचना की प्रापित की तिथि से 60 दिन के भीवत करने को मांग की गई थी। कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर, बंधकदाता उक्त राशि पुकाने में असफल वर हैं . अतः एत्तद्वारा कर्जदार(शें)/अच्च-कर्जदार(शें) /बंधकदाता(औ) तथा सर्वसाधारण को सुचना दी जा है कि अधोहतताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह

विर्णित तिथियों को ले लिया है। गणवाणा ताविया का ल लिया ह। जर्जवार(शे/) सम्ह-कर्जवार(शे/) गारंदर(शे/) बंधकदाता(ओं) को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तः

ाग्पति के संबंध में कोई भी संव्यवहार ऐक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार(रॉ)/सह-कर्जदार(रॉ)/गारंटर(रॉ)/बंधकदाता(ऑ) का ध्यान, प्रत्यामृत आस्तियों को छुड़ाने के लि प्पलब समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (७) के प्राक्धान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम | बंधक सम्पत्ति | मांग सूचना की तिथि |
|--|---|---|
| · | का वर्णन | कब्जा की तिथि |
| | | बकाया राशि |
| लॉक-ए, टीडीआई सिटी, कुंडली सोनीपत, हरियाणा-131001 अन्य पता - श्री दीपक कुमार । पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी मकान नंबर ए-329, न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, गे—110033 अन्य पता - श्री दीपक कुमार त्यागी (स्वामी) जंजेएफ ट्रेडसं, ए-392, न्यू सब्जी आजादपुर, विलाने-110033 अन्य पता - श्री दीपक कुमार त्यागी (स्वामी) जंजेएफ ट्रेडसं, ए-392, न्यू सब्जी आजादपुर, टिल्टी-110033 ।मती अंजिल त्यागी पत्नी श्री दीपक कुमार त्यागी निवासी फलेट नंबर ए-24/1, बेसमेंट, जी. व्याप्त, हिर्माणा-131001 अन्य पता - श्रीमती अंजिल । पत्नी श्री दीपक कुमार त्यागी निवासी मकान नंबर ए-329, न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, विनान कुमार त्यागी पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी पत्नेट नंबर ए-24/1, बेसमेंट, जी. वर्जाक-ए, टीडीआई सिटी, कुंडली सोनीपत, हरियाणा-131001 अन्य पता - श्री संजय कुमार । पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी ए-36, पंचवटी कालोनी, आवर्ष नगर, नोर्ध वेसर, दिल्ली, विनान श्री संजय कुमार त्यागी (स्वामी) मैसर्स कुमार त्यागी (स्वामी) मैसर्स श्रिवम एंटरप्राइजेंज, ए-329, | मूसम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट नंबर ए-24/1, जिसके ऊपर 'उक्त प्रलोर' नंबर ए-24/1 (बेसमेंट अंत जीएफ) परियाप 523442 वर्ग फीट, सुपर एरिया एवं प्लॉट एरिया 608.21 वर्ग गज (बेसमेंट एवं जीएफ) तल, कालोनों टीडोआई सिटी' के नाम से झात, कुंडली, सोनीपत, जो ग्राम नांगलकलां में और इसके आयपास स्थित है, जो सभी तहसील यहं जिला सोनीपत, हरियाणा के अंतर्गत पड़ते हैं, चौहददी निम्नानुसार : पृखः 18 मीटर चौड़ी रोड, उत्तरा : 3.353 मीटर चौड़ा राजस्व रास्ता, परिवम : ए-ए-24/2, पशिण : 12 मीटर चौड़ी रोड। | 11-अप्रैल-2023 11-जुलाई-2023 रू. 1,88,76,211/- (रूपए एक करोड़ अठासी लाख छहत्तर हजार दो सी ग्यारह मात्र) |

श्री दीपक कुमार त्यागी पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी फ्लैट नंबर ए-24/1, बेसमेंट, जी भूसम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड एफ ब्लॉक-ए, टीडीआई सिटी, कुंडली सोनीपत, हरियाणा—131001 अन्य पता — श्री दीपक कुमार त्यागी पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी मकान नंबर ए-329, न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली—110033 अन्य पता — श्री दीपक कुमार त्यागी (स्वामी) जेजेएफ ट्रेडर्स, ए-392, न्यू सब्जी

नहीं, आजादपुर, दिल्ली—10003 2. श्रीमती अंजलि त्यागी पत्नी श्री दीपक कुमार त्यागी निवासी फ्लैट नंबर ए—24/1, बेसमेंट, जी. एफ. ब्लॉक-ए. टीडीआई सिटी. कंडली सोनीपत. हरियाणा-131001 अन्य पता – श्रीमती अंजलि ागी पत्नी श्री दीपक कुमार त्यागी निवासी मकान नंबर ए—329, न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली-110033

 अी संजय कुमार त्यागी पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी फ्लैट नंबर ए-24 / 1. बेसमेंट. जी 3. श्री संजय कुमार त्यागी पुत्र श्री नरश कुमार त्यागा ानवासा पलंट नबर ए-24/1, बसमंद, जा एफ ब्लॉक-ए, टीडीआई सिटी, कुंडली सोनीपत, हरियाणा—131001 अन्य पता — श्री संजय कुमार त्यागी निमानुसार : पूरव : 18 मीटर त्यागी पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी ए-36, पंचवटी कालोगी, आदर्श नगर, नोंध वेस्ट, दिल्ली दिल्ली—110033 अन्य पता — श्री संजय कुमार त्यागी (स्वामी) मैसर्स शिवम एंटरप्राइजेज, ए—329, दितीय तल, न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली—110033 श्रीमती राजबाला त्यागी पत्नी श्री नरेश त्यागी निवासी फ्लैट नंबर ए-24 / 1 बेसमेंट जी एप

पत्नी श्री नरेश त्यागी निवासी ए-36. पंचवटी कालोनी, आदर्श नगर, दिल्ली-110033 श्री दीपक कुमार त्यागी पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी फ्लैट नंबर ए-24/1, बेसमेंट, जी मुसम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : प्लॉट एक ब्लॉक-ए, टीडीआई सिटी, कुंडली सोनीपत, हरियाणा-131001 अन्य पता – श्री दीपक कुमार - विसर्क कपर 'उवत ----दैल्ली–110033 अन्य पता – श्री दीपक कुमार त्यागी (स्वामी) जेजेएफ ट्रेडर्स, ए–392, न्यू सब्जी

निक्त निकार प्रतिनिक्त क्यां निकार पुनिक कुमार त्यांनी (सान) कार्यक प्रवर्श, र उड्ड. जू राजा मंडी, आजातपुर, विल्ती-न10033 2. श्रीमती अंजलि त्यांगी पत्नी श्री दीपक कुमार त्यांगी निवासी पत्नैट नंबर ए—24/1, बेसमेंट, जी एफ. ब्लॉक-ए. टीडीआई सिटी. कंडली सोनीपत. हरियाणा-131001 अन्य पता - श्रीमती अंजलि ागी पत्नी श्री दीपक कुमार त्यागी निवासी मकान नंबर ए—329, न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली-110033

त्र श्री संजय कुमार त्यागी पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी पलैट नंबर ए-24/1, बेसमेंट, जी एफ ब्लॉक-ए, टीडीआई सिटी, कुंडली सोनीपत, हरियाणा-131001 अन्य पता – श्री संजय कुमार against you.

1. You are hereby called upon to deposit the above sum within 15 days of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be made as per rules. 2. You are, hereby ordered to appear before the undersigned on 18.07.2023 at 11.00 AM. 3. In additional to the sum aforesaid you will be liable to pay: a) Such interest as is payable for the period commencing immediately after this notice of the execution proceedings. b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and other process that may be taken for recovering the amount due. त्यागी पुत्र श्री नरेश कुमार त्यागी निवासी ए–36, पंचवटी कालोनी, आदर्श नगर, नॉर्थ वेस्ट, दिल्ली, दिल्ली–110033 अन्य पता – श्री संजय कुमार त्यागी (स्वामी) मैसर्स शिवम एंटरग्राइजेज, ए–329, द्वितीय तल, न्यू सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली—110033 4. श्रीमती राजबाला त्यागी पत्नी श्री नरेश त्यागी निवासी पलैट नंबर ए—24/1, बेसमेंट, जी एप ब्लॉक–ए. टीडीआई सिटी, कंडली सोनीपत, हरियाणा–131001 अन्य पता – श्रीमती राजबाला त्यार्ग पत्नी श्री नरेश त्यागी निवासी ए—36, पंचवटी कालोनी, आदर्श नगर, दिल्ली—110033 ा. श्री प्रमाकर मिश्रा पुत्र श्री देवीकांत मिश्रा, फ्लैट नंबर 288. चतुर्थ तल, श्री कृष्ण अपार्टमेंट, क्रीहोल्ड डीडीए निर्मित एलआईजी फ्लैट जे–ब्लॉक, फेज–2, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085, अन्य पता : एन.सी. जिंदल पब्लिक स्कूल, नंबर 288. क्षेत्रफल परिमाप 48 वर्ग मीटर

रोड नंबर 76, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026

अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की प्रावधानों के अनुसार बेची जाएंगी।

DETAILS OF AMOUNT IN THE RECOVERY
CERTIFICATE DUE AGAINST YOU

Recovery Certificate Amount
Cost of Suit

Rs. 1,26,37,840.50
Rs. 1,30,662.00 Cost of Suit 18.04.2023 @ 18% p.a. (Simple) Rs. 30.35.159.17

Interest from 17.12.2021 to ered after RC issued (If any) . Total Dues Rs. 1,58,03,661.67

Seal

नेहरू गेट मोरबी शाखाः

श्रीमती जूली मिश्रा पत्नी श्री प्रभाकर मिश्रा, फ्लैट नंबर 288, चतुर्थ तल, श्री कृष्ण अपार्टमेंट,

उपरि-वर्णित कर्जदार(पें)/सह-कर्जदार(पें)/गारंटर(रों)/बंधकदाता(ओं) को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि वे उक्त बकाया राशि 30 दिन के भीतर चुकता कर दें अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर बंधक सम्पत्तियां प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के तहत

जे—ब्लॉक, फेज–2, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली–110085, अन्य पता : श्रीमती जूली मिश्रा पत्नी

श्री प्रभाकर मिश्रा, निवासी बी-1107, द्वितीय तल, सेक्टर-1, अवंतिका, रोहिणी, दिल्ली-110085

मांग सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda रवपार रोड, मोरबी-363641 Fireger ID Store

दिनांक: 07.07.2023

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

प्रिंगामस्वरूप, आपके ऋण खाते को **गैर–निष्पादित परिसंपत्ति** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि **जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** अधिनियम के तहत एक प्रत्याभृत ऋणदाता होने के नाते, और उर अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमी 2002 के नियम 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **मांग सूचना** जारी कर कॉलम नंबर 2 में उल्लेखि उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को सूचना की दिनांक से **६० दिनों** के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ सूचना में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुर

करोल बाग दिल्ली—110005

| 3 | क. सं. | उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता /गारंटर/बंधककर्ता का नाम | ऋण खाता संख्या और ऋण राशि | ·· | एनपीए की दिनांक और मांग सूचना दिनांक | बकाया राशि रुपये में / तक | |
|---|-----------|--|--|--|--|------------------------------|--|
| | 1 | (4) श्री हाजी बसरुद्दीन | 45139660000125 और 45120200000 24211 ऋण राशि : रू.63,11,824/— रू.7,36,720/— | प्रत्याभृत परिसंपत्तियों का विवरण—भाग—''अ'' — दृष्टिबंधक अचल परिसंपत्तियां: सभी कच्चे माल और खाते की पुस्तकों में स्टॉक पर और प्राप्तियों पर और कंपनी के व्यापार परिसरों के ऋण बुक यानी, मैसर्स शिबरा स्टील ट्रेडर्स, दुकान सं. 453/6, हिंडोन विहार, मेरठ रोड, गली सं.2, गाजियाबाद, उ.प्र.—201001 भाग—''ब'' — बंधक अचल संपति: अनुसूची संपति: संपति विवरण: 1. श्री हाजी बसरूदीन पृत्र श्री छिड्डा के स्वामित्व का कित्ता प्लॉट मापक क्षेत्र 166.66 वर्ग गज, खसरा सं. 67 मीन, स्थित हिंडोन विहार, हदवस्त ग्रम बाउनहाजा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उ.प्र, सीमांकन प्रकार: पूर्व: 20 फुट चौडी, पश्चिम: श्रीमती नूरजहां की संपत्ति, उत्तर:श्रीमती नूरजहां की संपत्ति, दक्षिण: त्यागी जी की संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति हिंडोन विवरण: 2. श्रीमती सलमा पत्नी मोहम्मद यामिन के स्वामित्व का प्लॉट सं.40 और प्लॉट सं.41, मापक क्षेत्र 54.41 वर्ग गज और प्लॉट सं.55 का संपूर्ण भाग क्षेत्र 16 वर्ग गज, कुल मापक क्षेत्र 68.41 वर्ग गज, , खसरा सं. 131/1 र्गाम केला, परगना लोनी, तहसील गाजियाबाद, उ.प्र, सीमांकन प्रकार: पूर्व: 12 फुट चौड़ा रास्ता, पश्चिम: प्लॉट सं. 42, उत्तर: रास्ता 10 फुट चौड़ाा, दक्षिण: अन्य संपत्ति | एनपीए की दिनांक 01.01.2023 मांग सूचना दिनांक 12.07.2023 | मात्र) | |

इसलिए जैसा कि कॉलम नंबर 2 में उल्लेख किया गया है. उधारकर्ता /सह—उधारकर्ता /गारंटर और बंधककर्ता को सचित किया जाता है कि उन्हें इस सचना के प्रकाशन के **६० दिनों** के भीत सभी संबंधित उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता के विरुद्ध कॉलम नंबर 6 में दिखाए गए कुल राशि का भृगतान करने का आहवान किया गया है क्योंकि उक्त राशि संबंधित ऋण खाते के संबंध में कॉलग नंबर 6 में वर्णित दिनांक के अनुसार देय पाई जाती है। यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कुल राशि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ जो भुगतान की दिनांक तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर प्रत्याभृत ब्याज को प्रवर्तीत करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए विवश किया जाएगा क्रपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया जाता है जैसा कि कानून के तहत उक्त वित्तीयों के उधारकर्ता/सह—उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं वे विरुद्ध **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** को उपलब्ध है, आपसे <mark>यह</mark> भी अनुरोधि किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको उपर्युक्त प्रतिभूति के निपटान य उससे निपटने या प्रत्याभूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना प्रत्याभूत परिसंपत्ति के बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोकाँ/निषिद्ध किया जाता है।

बोर्ड द्वारा आदेशि

ओम प्रकाश सिंह

सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार्र

प्रत्याभूत ऋणदाता के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन शाखा के नीचे उल्लेखित कर्जदारों के खिलाफ मांग सूचना जारी की गई है।

| शाखाकानाम/ | कजदारा//सह-कजदारा/गारटादाताआ | एनपाए का ताराख/ | સામા (૪.મ) તથા | ब्याज का दर | 19919 07.07.2023 |
|--------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| खाता का नाम/ | का नाम एवं पता | सूचना वापसी के | सुविधा की प्रकृति | (प्रति वर्ष के तथा | को कुल बकाया |
| खाता सं. | | कारण | एवं प्रकार | मासिक विराम) | (दि. 07.07.2023 तक |
| | | | | · | ब्याज सहित) |
| नेहरू गेट शाखा, | (1) जिनोक्स इंडस्ट्रीज (कर्जदार), पताः ऑर्बिट | 12.06.2023 | ₹. | (वर्तमान बीआरएलएलआर | क) दिनांक 07.07.2023 को |
| मोरबी | कॉमप्लेक्स के पीछे, प्लॉट नं. 133, अश्वमेघी होटल | / | 1 ,25 ,00 ,000/- | एसपी ऋण का विस्तार | मूल बकायाः |
| कर्जदारः | के सामने, टिम्बदी, मोरबी-363642, (2) संजय वर्मा, | "वापस" | / | 3.10%) यानी | ₹. 99,74,372.74 |
| जिनोक्स इंडस्ट्रीज | मैसर्स जिनोक्स इंडस्ट्रीज के साझेदार (कर्जदार/ | | नकदी ऋण | 12.35% वर्तमान में | ख) दिनांक 07.07.2023 तक |
| | गारंटीदाता), पताः धनी पाल, हंसी रूरल, 119 हिसार, | | (70300500000937) | | अप्रयुक्त ब्याज साथ में असेवित |
| नकदी ऋण, | हरियाणा-125 033, (3) सुरेश कुमार, मैसर्स जिनोक्स | | | | ब्याज (साथ में ब्याज रिवर्सल) |
| खाता संख्या | इंडस्ट्रीज के साझेदार (कर्जदार/गारंटीदाता), पताः मंदरी | | | | रु. 5,26,244.50/- |
| 70300500000937 | झूंझुनू, खेतरी, राजस्थान-333 504, (4) हालुभा रामुभा | | | | दिनांक 07.07.2023 को कुल |
| | जाला, मैसर्स जिनोक्स इंडस्ट्रीज के साझेदार (कर्जदार/ | | | | बकायाः रु. 1,05,00,617.24 |
| | गारंटीदाता), पताः अमरनगर, रवपार नदी, मोरबी- | | | | यानी (ए+बी)+आगे का ब्याज+ |
| | 363 641, (5) माधुरी मितेशभाई पित्रोदा, मैसर्स | | | | विधिक व्यय - वसूली |
| | जिनोक्स इंडस्ट्रीज के साझेदार (कर्जदार/गारंटीदाता), पताः | | | | - |
| | जावेरी स्ट्रीट, लखदीर वास एमडीजी, मोरबी-363 641 | | | | |

सम्पत्ति का विवरणः 1) मैसर्स जिनोक्स इंडस्ट्रीज, ऑर्बिट कॉमप्लेक्स के पीछे, प्लॉट नं. 133, अश्वमेघी होटल के सामने, टिम्बदी, मोरबी में स्थित/पड़ी हुई सभी मूर्त चल सम्पत्तियों के साथ स्टॉक एवं बही ऋण तथा अन्य सभी संयंत्र तथा मशीनरियों का **हॉयपोधिकेशन,** अधिक विवरण हॉयपोधिकेशन समझौता दिनांक 19.11.2021 के अनुसार। 2. भेरवी तालुका, जिलाः मोरबी के अधीन ग्राम टिम्बदी के सर्वे नं. 82पी2 की गैर-कृषितर भूमि के प्लॉट नं. 6 (वर्ग मीटर 565-71) तथा प्लॉट नं. 13 (वर्ग मीटर 599-54) में स्थित **फैक्ट्री भूमि एवं भवन** (निर्मित क्षेत्रफल वर्ग मीटर 1165-25), जिसका स्वत्वाधिकारी श्री हालुभा रामुभा जाला हैं, बिक्री विलेख दिनांकितः 15.03.2021, गिरवी की तारीखः 20.11.2021, एसआरओ-मोरबी । चौहदी निम्नानुसार हैं: प्लॉट नं. 13 - पूर्वः एनए रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. ६ की भूमि, उत्तरः सामान्य प्लॉट, दक्षिणः प्लॉट नं. 12 की भूमि तथा चौह**दी निम्नानुसार हैंः प्लॉट नं. ६ - पूर्वः** प्लॉट नं. 13 की भूमि, पश्चिमः एनए रोड, उत्तरः सामान्य प्लॉट, दक्षिणः प्लॉट नं. 7 की भिम।

आप ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार हमारी **नेहरू गेट शाखा, मोरबी, गुजरात** से प्राप्त उपरोक्त ऋण के साथ स्वीकृत दर पर आगे के ब्याज की रकम चुकता करने में विफल हो चुके हैं। बैंक द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन ऊपर उल्लेखित सारणी में वर्णित बकाया रकम चुकता करने के लिए आपको सूचना **दिनांकित 07.07.2023** जारी की गई। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आपको मांग सूचना भेजी गई थी, परंतु वह यह ऊपर उल्लेखित कारणों से वापस आ गई। आपने दोबारा रकम चुकता करने में विफल हो चुके हैं। आपको इस सूचना की तारीख से **60 दिनों** के अंदर ब्याज के साथ बकाया रकम चुकता करने को कहा जाता है, अन्यथा बैंक प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवंतन अधिनियम 2002 की अनुसूची में उल्लेखित प्रत्याभूत सम्पत्तियों के खिलाफ प्रतिभूति हित प्रवर्तन के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा। बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर व्यवसाय के सामान्य कार्यों के अलावा आप पर बिक्री, पट्टा अथवां अन्य किसी भी रूप में त्याभूत सम्पत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्ति को मुँक कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। सार्वजनिक नीलामी/कोटेशन आमंत्रण/निविदा/निजी समझौता के लिए सूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय अगर आपके द्वारा बकाया रकम के साथ सभी लागतों, शुल्कों तथा बैंक द्वारा किए गए व्यय की रकम का सुगतान कर दिया जाता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि ऊपर उल्लेखित विवरण के अनुसार सचना के प्रकाशन के उपरांत प्रत्याभूत सम्पत्ति को मुक्त कराने का आपका अधिकार उपलब्ध नहीं रहेगा। यह सूचना कानूनी कार्रवाई शुरू करने के साथ बैंक के पास उपलब्ध अन्य कोई भी निवारण अधिकार के पूर्वाग्रह से

दिनांक: 13.07.2023

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, प्रति जना रमॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेः दिनांक: 15.07.2023, स्थान: दिल्ली एनसीआर

मुख्य प्रबंधक एवं अधिकृत अधिकारी